



मेरे वीज़ा की अवधि समाप्त हो गई है

COVID-19 परीक्षण और उपचार

यदि आपके पास वीज़ा नहीं है या आप अपने वीज़ा की स्थिति के बारे में अनिश्चित हैं, तो भी आपको जनस्वास्थ्य निर्देशों का पालन करना होगा। यदि आप अस्वस्थ महसूस कर रहे/रही हैं, तो चिकित्सीय सलाह लें और COVID-19 का परीक्षण करवाएँ।

राज्य और राज्य-क्षेत्रों की सरकारें निःशुल्क COVID-19 परीक्षण और उपचार उपलब्ध करा रही हैं।

- [ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र](#)
- [न्यू साउथ वेल्स](#)
- [उत्तरी राज्य-क्षेत्र](#)
- [क्वींसलैंड](#)
- [दक्षिण ऑस्ट्रेलिया](#)
- [तस्मानिया](#)
- [विक्टोरिया](#)
- [पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया](#)

मेरे वीज़ा की अवधि समाप्त हो गई है

28 दिनों के अंदर समाप्त हुई है

यदि आपके वीज़ा की अवधि समाप्त हो गई है, तो आपको वैध पदस्थिति प्राप्त करने के उद्देश्य से तुरंत [ब्रिजिंग वीज़ा ई \(बीवीई\) \[Bridging visa E \(BVE\)\]](#) के लिए आवेदन करना होगा। बीवीई [BVE] एक अल्पकालिक वीज़ा है जो आपको ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान करने की व्यवस्थाएँ करते समय वैध बने रहने देता है।

यदि आप ऑस्ट्रेलिया में वैध रूप से रहना चाहते/चाहती हैं, तो आपको नए वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा। आपके वीज़ा के विकल्पों और वैध बने रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसका निर्धारण आपकी परिस्थितियाँ करेंगी। आपके वीज़ा की अवधि कितने समय पहले समाप्त हुई है, इस आधार पर आपके लिए ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित रहते हुए आगे के वीज़ा के लिए आवेदन करने पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

वीज़ा आवेदन प्रक्रिया से संबंधित कुछ सेवाएँ COVID-19 से प्रभावित हो सकती हैं और ऐसी अनेकानेक सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं (जैसे चिकित्सीय जाँचें और बायोमेट्रिक संग्रह), जिनपर हम निर्भर करते हैं। आवेदकों को जाँचें पूरी करने और निवेदन की गई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

28 दिनों से पूर्व समाप्त हो गई

यदि आपका वीज़ा 28 दिनों से पूर्व समाप्त हो गया, तो कृपया अपनी आप्रवासन स्थिति का समाधान करने में सहायता के लिए [स्थिति समाधान सेवा \(एसआरएस\) \[Status Resolution Service \(SRS\)\]](#) से संपर्क करें।